



## Government of Jharkhand

### Receipt of Online Payment of Stamp Duty

**NON JUDICIAL**

**Receipt Number : 42967046c57d74cb2edc**

**Receipt Date : 03-Jun-2024 08:28:34 pm**

**Receipt Amount : 100/-**

**Amount In Words : One Hundred Rupees Only**

**Token Number : 202400063954**

**Office Name : SRO - Deoghar**

**Document Type : Development Agreement**

**Payee Name : OMKARA HOMES ( Vendee )**

**GRN Number : 2402382269**



Manu 11/06/2024



- For Office Use :-

निवंदन अधिनियम.....1908.....के ज्यान D. Agreement

जौर छोटानगपुर/संयालपरगना टेनेम्सी एक्ट की

पारा.....21.....के अधीन भी ग्राम है जौर

इण्डियन स्टाप्प एक्ट 1899 की अनुसूचि A(1) के

खण्ड.....5.....के अधीन यदावत स्टाप्प त्राईत

(या स्टाप्प शुल्क के बिन्दुवर्त या स्टाप्प शुल्क अपेक्षित नहीं)

**MANOJ KUMAR**  
प्रेसन प्राप्तिकर्ता

<u>feepaid</u>	100/-
A1- 317063-	
E- 2000-	
LL- 3-	
PR- 1-	
<i>Signature</i>	<i>Signature</i>
<b>SABITA KUMARI</b>	<b>Abhishek Bhattacharya</b>

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्राक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्राक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्राक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

१०२५४३१०८९५४३०५४३०

For Omikara Homes  
Partner

Karma Venkatesh Kumar  
Partner

Abhishek Bhakti

१०२५४३१०८९५४३०५४३०

## एकरारनामा वास्ते भवन निर्माण / विकास

यह एकरारनामा भवन निर्माण / विकास के लिये आज दिनांक ७ अगस्त 2024 इस्थी को प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच संपन्न किया जा रहा है।

**प्रथम पक्ष का नाम और पता :—**श्री गजेन्द्र नारायण मिश्र, पिता स्वर्गीय हरि नारायण, मिश्र, दादा स्वर्गीय चन्द्र नारायण मिश्र, वर्ग सामान्य, पेशा व्यवसाय, साकिन चैतन्य नाथ जजवाड़े पथ, मानसरोवर, बी. देवघर, थाना देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य-झारखण्ड, वर्तमान साकिन शिवपुरी, बिलासी, थाना देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य-झारखण्ड, आधार न० XXXX XXXX 1332

**समर्थनकर्ता का नाम और पता :—**१. श्रीमती मंजु देवी, पिता स्वर्गीय हरि नारायण मिश्र, दादा स्वर्गीय चन्द्र नारायण मिश्र, पति सुनील दत्त द्वारी, वर्ग सामान्य, पेशा गृहस्वामीनी, साकिन कझिया, पत्रालय तपोवन, थाना कुण्डा, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य-झारखण्ड, आधार न० XXXX XXXX 5489

२. श्रीमती सुपना झा, पिता श्री गजेन्द्र नारायण मिश्र, दादा स्वर्गीय हरि नारायण मिश्र, पति निखिल झा, वर्ग सामान्य, पेशा गृहस्वामीनी, साकिन बम बम बाबा ब्रह्मचारी, पथ देवघर, थाना देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य-झारखण्ड, आधार न० XXXX XXXX 1419


३. श्री अभिषेक भारती, पिता श्री गजेन्द्र नारायण मिश्र, दादा स्वर्गीय हरि नारायण मिश्र, वर्ग सामान्य, पेशा व्यवसाय, साकिन चैतन्य नाथ जजवाड़े पथ, मानसरोवर, बी. देवघर, थाना देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य-झारखण्ड, वर्तमान साकिन शिवपुरी, बिलासी, थाना देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य-झारखण्ड, आधार न० XXXX XXXX 5074

श्रीराजेन्द्र नारायण किंसु नाम श्री/स्व० हरि नारायण मुमिन  
 .....निवास स्थान गोदावरी नाथ अजगढ़ाड़ पव  
 जाति गोदावरी .....पेशा गोपकारी/दावेदार विधिर  
 या अवर निवंधन .....करा प्रमाणिक सूचि मुख्तारनामा  
 संख्या .....वर्ष .....के अक्षेत्र लोडकारीया या दावेदारे  
 मे से एक श्री .....के अभिज्ञा (अब्जी) है जे  
 ताठ ४/२०२५ के खुआंदन/अपसाहन में ID. No. ४/.....  
 (समद) जिला में निवंधन के लिए पेश किया ।

उपर्यापक का हस्ताक्षर

निवंधन पदार्थ का हस्ताक्षर

२१ जून २०२५ ई



२१ जून २०२५ ई  
७.८.२०२५



कृष्णपुरी  
कृष्णपुरी

५८५  
५८५

५८५  
५८५

कृष्णपुरी  
कृष्णपुरी

द्वितीय पक्ष का नाम और पता :- ओमकारा होम्स, बजरिये पाठनगर-श्री कमलेन्द्र कुमार पिता स्वगीय माकण्डेय(झा)कुजिलवार, गर्म रामान्य, पेथा व्यवसाय, साकिंग चक्रवर्ती लेन, वी. देवधर, धाना देवधर, सब्जिविजन, सबरजिट्री व जिला देवधर, राज्य-जारखण्ड, आवार नं. XXXX XXXX 6177

प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष संबोधनों में तब्दील विषय के प्रतिकुल अथवा संदर्भ में अनपेक्षित न हों उनके वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक प्रतिनिधि भी रामिलित माने जायेंगे।

लेख प्रकार :- एकरारनामा ग्रास्ते भवन निर्माण/विकास।

पिपिरा हो कि जिला, सब्जिविजन, सबरजिट्री व धाना देवधर के अन्तर्गत मौजा झौंसागढ़ी नं. 582 के अन्दर असार्वदीत बसीड़ी रात्य की हरिनान्तरणीय जमीन टाउन प्लान प्लाट नं. 73 का अंश रकवा 8,890 वर्गफीट, अन्दर जमावंदी नं. 606, अन्दर छलका देवधर नगरपालिका वार्ड नं. 12, उपर्युक्त हम प्रथम पक्ष के पिता हरिनारायण मिश्र दिनांक 17/07/1973 ईस्वी में निवेदन कार्यालय देवधर से निवधित बिहू पत्र पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 28, पृष्ठ संख्या 120 से 124 में निवधित जिरागी संख्या 3646 वर्ष 1973 ईस्वी के द्वारा, हारे प्रसन्न भट्टाचार्य से खरीद किये त उसपर दखल कला लेकर तथा अंचल कार्यालय देवधर में नामान्तरण वाद संख्या 357/1973-74 के द्वारा दिनांक 28/06/1974 ईस्वी के आदेशानुसार नाम दर्ज करवाकर उसके बावजूद रालाना खजाना आदाय करते हुई ताजिन्दगी निर्विवाद रूप से भोग दखल करते रहे।

उपर्युक्त हम प्रथम पक्ष के पिता हरिनारायण मिश्र जापने पौछे एकमात्र पुत्र हम प्रथम पक्ष गजेन्द्र नारायण मिश्र व एकमात्र पुत्री समर्थनकर्ता नं. 1 मंजु देवी को छोड़कर रख्गयारा कर गये। उपर्युक्त समर्थनकर्ता नं. 1 मंजु देवी का विवाह सुखी संपन्न यरियार में हुआ है और वह अपने ससुराल में सुखपूर्वक वसोवास कर रही है तथा उक्त सम्पत्ति से रामर्थन कर्ता नं. 1 मंजु देवी को कोई वास्ता या सरोकार नहीं है और उपर्युक्त हम प्रथम पक्ष उक्त सम्पत्ति के एकमात्र मालिक होकर तथा अंचल कार्यालय देवधर में नामान्तरण वाद संख्या 566/आर. 27/2020-2021 के द्वारा, दिनांक 18/11/2020 के आदेशानुसार नाम दर्ज करवाकर आजतक निर्विवाद रूप से भोगदान व दखलकार है।

- उपर्युक्त समर्थनकर्ता नं. 2 सपना झा जो हम प्रथम पक्ष के एकमात्र पुत्री है व समर्थनकर्ता नं. 3 अभिषेक भारती जो हम प्रथम पक्ष के एकमात्र पुत्र है। उपर्युक्त समर्थनकर्ता नं. 2 सपना झा का विवाह सुखी संपन्न यरियार में हुआ है और वह अपने ससुराल में सुखपूर्वक वसोवास कर रही है तथा उक्त सम्पत्ति से रामर्थन कर्ता नं. 2 सपना झा को कोई वास्ता या सरोकार नहीं है तथा समर्थनकर्ता नं. 3 अभिषेक भारती को भी उक्त सम्पत्ति से कोई वास्ता या सरोकार नहीं है।

साथ ही साथ उपर्युक्त हम समर्थनकर्ता नं. 1 व 2 को उक्त सम्पत्ति का अवशेष पञ्चम तरफ रकवा 2,590 वर्गफीट व विक्रय पत्र संख्या 228 वर्ष 1989 ईस्वी के द्वारा उपर्युक्त हरिनारायण मिश्र के द्वारा खरीदारी सम्पत्ति उक्त मौजा झौंसागढ़ी के अन्दर बसीड़ी सत्त्व की जमीन टाउन प्लान प्लाट नं. 73 का अंश रकवा 8,890 वर्गफीट, अन्दर जमावंदी नं. 606 तथा बिक्रीय पत्र संख्या 861 वर्ष 2001 ईस्वी के द्वारा उपर्युक्त हरिनारायण मिश्र के द्वारा खरीदारी सम्पत्ति उक्त मौजा झौंसागढ़ी के अन्दर बसीड़ी सत्त्व

Mr. Michael Ghosh  
Sapna Film

की जमीन टाउन प्लाट न0 73 का अंश रखवा 420 वर्गफीट, अन्दर जमावदी न0 606 के बावजूद भी कोई वारता या सरोकार नहीं है और उपर्युक्त प्रथम पक्ष गजेन्द्र नारायण मिश्र ही उक्त सम्पत्तियों के एकमात्र मालिक और दखलकार है तथा भविष्य में उपर्युक्त प्रथम पक्ष गजेन्द्र नारायण मिश्र उक्त सम्पत्तियों को स्वेच्छा पुर्वक भोग, दखल, दान, छिक्की मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने के अधिकारी होकर रखेच्छा पुर्वक भोग दखल किया करेंगे। इसमें हम समर्थनकर्ता न0 1 व 2 मय वारिसान को किसी भी तरह की उज्ज्वलता नहीं है, न भविष्य में होगी, इसलिये हम समर्थनकर्ता न0 1, 2, 3 इस एकरानामा यारते भवन गिरावं / विकास का समर्थन करते हैं।


यह कि इस प्रकार प्रथम पदा का उपरोक्त गणित भूखण्ड पर निविवाद हक, दखल व कब्जा है और उपरोक्त गणित भूखण्ड पूर्णरूपेण दोष रहित पाक—साफ और अहन मार मुक्त है। उपरोक्त गणित भूखण्ड पर प्रथम पदा के अतिरिक्त और किसी का स्वामित्व, हक, दखल व कब्जा नहीं है, न ही पूर्व में किसी से किसी भी प्रकार का कोई एकरानामा किये है।

उक्त सम्पत्ति में देवघर नगर निगम के कार्यालय से रखीकृत बिलिंग अनुसार मल्टी स्टोरिङ 2 बी.एच.के व 3 बी.एच.के का आवासीय मकान का निर्माण किया जायेगा।

यह कि उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के चारों ओर आवासीय क्षेत्र है एवं देशभर नगर निगम के द्वारा उपरोक्त वर्णित भूखण्ड आवासीय क्षेत्र घोषित किया गया है। उपरोक्त वर्णित भूखण्ड की प्रकृति असर्वेक्षित बस्तीड़ी है। इसलिए प्रथम पक्ष उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के अन्दर एकवा 6300 वर्गफीट पर बहुमजिला भवन बनाकर विकसित एवं विक्री करने के लिये गवन का निर्माण कराना चाहते हैं।

यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त वर्णित भूखण्ड रक्वा 6300 वर्गफीट पर बहुमंजिला इमारत बनाकर विकसित करना चाहते हैं। प्रथम पक्ष स्वयं निर्माण करने में असमर्थ होने पर द्वितीय पक्ष जो एक भवन निर्माता एवं विक्रेता (विकासकर्ता) हैं, को इस एकरारनामा के द्वारा वह सभी शक्तियाँ प्रदान की जिसके द्वारा द्वितीय पक्ष उपरोक्त जमीन पर आवासीय एवं व्यवसायिक बहुमंजिला भवन बनाकर विकसित कर सकते हैं। इस एकरारनामा में प्रद्युम्न शब्दों के अर्थ इस प्रकार होंगे—

- 1.जमीन मालिक :—प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारी, प्रधासक, निष्पादक एवं प्रतिनिधि समझे जायेंगे।
  - 2.विकासकर्ता :—द्वितीय पक्ष व उनके उत्तराधिकारी, प्रधासक, निष्पादक एवं प्रतिनिधि समझे जायेंगे।
  - 3.उपरोक्त जमीन :—मौजा झीसागढ़ी के अन्दर असर्वेक्षित बसीड़ी सत्य की हस्ता-तरणीय जमीन, थाना न० 582, थाना देवघर, ज़बूदिविजग, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, राज्य-झारखण्ड, अन्दर जमाबन्दी न० 606 / 1, टाउन प्लान प्लाट न० 73 का अप रकवा 6300 वर्गफीट, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न० 12, देवघर नगर निगम वार्ड न० 23, जो मुतलके वो जिला रजिस्ट्रार वो सब-रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार देवघर से संबंधित है।



4.नया भवन :—उपरोक्त जमीन पर बनने वाले आवासीय बहुमंजिला इमारत या भवन जिसे देवघर नगर निगम के द्वारा स्वीकृत किये गये नक्शे के अनुसार बनाया जायेगा, जिसका नामकरण “वीणा इनक्लेव” (VEENA ENCLAVE) होगा।

5.जमीन मालिक का हिस्सा :—उपरोक्त जमीन पर बनने वाले आवासीय बहुमंजिला इमारत या भवन के कुल निर्मित व अर्द्धनिर्मित क्षेत्र में से 45% (पैंतालीस प्रतिशत) जमीन मालिक का होगा।

6.विकासकर्ता का हिस्सा :—उपरोक्त जमीन पर बनने वाले आवासीय/व्यवसायिक बहुमंजिला इमारत या भवन के कुल निर्मित व अर्द्धनिर्मित क्षेत्र में से 55% (पचपन प्रतिशत) विकासकर्ता का होगा।

7.पार्किंग क्षेत्र :—ढ़के हुए निर्मित व अर्द्धनिर्मित संरक्षित क्षेत्र से होगा, जिसे कार अथवा अन्य वाहन खड़े करने के लिए उपयोग में लाया जायेगा एवं जमीन मालिक को 45% (पैंतालीस प्रतिशत) एवं 55% (पचपन प्रतिशत) विकासकर्ता का हिस्सा होगा।

8.सामान्य क्षेत्र :—आवासीय बहुमंजिला इमारत या मकान के निर्मित व अर्द्धनिर्मित क्षेत्र के सीढ़ी, रास्ता, लिफ्ट, गैलेरी, पम्प रुम, ट्यूबवेल, पानी की टंकी, सार्वजनिक उपक्रम साधन एवं सुविधाओं इत्यादि से है।

9.समूण निर्मित क्षेत्र :—आवासीय बहुमंजिला इमारत या मकान के कुल निर्मित व अर्द्धनिर्मित क्षेत्र जिसमें दिवाल, बालकॉनी, बरामदा, सीढ़ीयाँ, चौकीदार का कमरा, जेनरेटर रुम, इत्यादि से हैं।

10.प्राकृतिक आपदा :—प्राकृतिक आपदा से तात्पर्य बाढ़, भूकम्प, तुफान, महामारी, दंगा, युद्ध, हड्डताल, तालाबन्दी, आपातकाल इत्यादि से है।..

यह कि जमीन मालिक ने इस एकरारनामा के निष्पादन के तत्काल प्रभाव से विकासकर्ता को अपनी उपरोक्त जमीन पर शान्ति पूर्वक दखल दिये और उसपर विकासकर्ता को निम्न प्रकार से विकास कर उसपर आवासीय/व्यवसायिक बहुमंजिला इमारत या भवन बनाने के लिए अधिकृत किये एवं प्रथम पक्ष के प्रस्ताव को मानकर द्वितीय पक्ष उपरोक्त वर्णित भूखण्ड पर आवासीय बहुमंजिला इमारत विकसित करने हेतु निम्नलिखित शर्तों पर तैयार हुए—

वित्तीय पक्ष  
 अनुसूची "क"  
 दर्शाये गये भूखण्ड पर आवासीय बहुमंजिला  
 इमारत या भवन बनवाने की इच्छा रखते हैं एवं अनुसूची "क" में दर्शाये गये भूखण्ड को  
 कीमत के बदले आवासीय क्षेत्र में नवनिर्मित बहुमंजिला इमारत/भवन में बना हुआ कुल  
 निर्मित व अनिर्मित क्षेत्र में से 45% (पैंतालीस प्रतिशत) बिल्ट-अप एरिया प्रथम पक्ष प्राप्त  
 करेंगे जिसका विवरण अनुसूची "ख" में दिया जा रहा है। द्वितीय पक्ष अपने हिस्से का  
 55% (पचपन प्रतिशत) निर्मित एवं अर्द्धनिर्मित क्षेत्र प्राप्त करेंगे जिसका विवरण अनुसूची  
 "ग" में दिया जा रहा है।

1. यह कि द्वितीय पक्ष अनुसूची "क" में दर्शाये गये भूखण्ड पर आवासीय बहुमंजिला इमारत या भवन बनवाने की इच्छा रखते हैं एवं अनुसूची "क" में दर्शाये गये भूखण्ड को कीमत के बदले आवासीय क्षेत्र में नवनिर्मित बहुमंजिला इमारत/भवन में बना हुआ कुल निर्मित व अनिर्मित क्षेत्र में से 45% (पैंतालीस प्रतिशत) बिल्ट-अप एरिया प्रथम पक्ष प्राप्त करेंगे जिसका विवरण अनुसूची "ख" में दिया जा रहा है। द्वितीय पक्ष अपने हिस्से का 55% (पचपन प्रतिशत) निर्मित एवं अर्द्धनिर्मित क्षेत्र प्राप्त करेंगे जिसका विवरण अनुसूची "ग" में दिया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष इस एकरारनामा के तहत बहुमंजिला इमारत का निर्माण इस एकरारनामा के निष्पादन होने की तिथि से चौबीस महीने में कर दिया जायेगा।

3. यह कि विकासकर्ता भवन निर्माण के लिए उच्च कोटी की सामग्री का इस्तेमाल करेंगे जिसका विवरण सूची "घ" में दिया जा रहा है। द्वितीय पक्ष स्वविवेक से और अधिक खर्च कर और अधिक गुणवत्ता ला सकते हैं।

4. यह कि प्रथम पक्ष, विकासकर्ता का आश्वासन देते हैं कि विकासकर्ता को जब भी उक्त जमीन के दखल या हक दावे से सम्बंधित किसी प्रकार का कोई स्थानीय या कानूनी अङ्गचन आवे तो उन्हे उसे निपटाने में पूरा सहयोग करेंगे जिससे विकासकर्ता को उपरोक्त 'जमीन पर शान्तिपूर्ण नये बहुमंजिला इमारत/भवन के निर्माण में किसी प्रकार का बाधा या अङ्गचन न आवे।

5. यह कि प्रथम पक्ष, विकासकर्ता को यह भी आश्वासन देते हैं कि उपरोक्त जमीन के बावत उन्होंने किसी अन्य पक्ष से किसी प्रकार का कोई एकरारनामा न तो किया है और न ही इस एकरारनामा के बैध रहते किसी प्रकार का कोई सौदा या एकारारनामा करेंगे।

6. यह कि प्रथम पक्ष आवासीय बहुमंजिला भवन, मकान या अन्य अनुसूची "क" में दर्शाये गये भूखण्ड पर बनाने का प्रस्ताव भवन निर्माता के समक्ष रखें हैं जिसे भवन निर्माता (डेमलपर) ने अनुसूची "क" में दर्शाये गये भूखण्ड पर देवघर नगर निगम के द्वारा स्वीकृत किये गये नवशे के अनुसार अपने एवं भावी खरीदारों के खर्च पर आवासीय बहुमंजिला इमारत या भवन निर्माण करने को तैयार हैं।

7. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा भवन निर्माता को (डेमलपर) को अनुसूची "क" में वर्णित भूखण्ड पर आवासीय बहुमंजिला भवन बनाने एवं द्वितीय पक्ष को अपने हिस्से को बेचने हेतु एक मुख्तारनामा देंगे।

Karmalayam निर्माण  
विभाग  
मुख्यमंत्री  
कृष्ण अड्डा  
मुख्यमंत्री कृष्ण अड्डा

8.यह कि भवन निर्माता (डेमलपर) अनुसूची 'क' में वर्णित भूखण्ड पर अनुसूची 'घ' में वर्णित विशेषताओं के साथ आवासीय बहुमंजिला भवन को देवघर नगर निगम के द्वारा स्वीकृत किये गये नक्शे के अनुसार निर्मित करेंगे।

9.यह कि भवन निर्माता (डेमलपर) अनुसूची 'क' में वर्णित भूखण्ड पर अनुसूची 'घ' में वर्णित विशेषताओं के साथ बहुमंजिला इमारत भवन को देवघर नगर निगम के द्वारा किसी प्रकार के प्राकृतिक आपदा के कारण या सरकारी आदेशानुसार या बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण में लगने वाले सामग्री की कमी होने पर या श्रमिकों के अभाव में उपरोक्त वीत समय को उपरोक्त समय-सीमा में पूरा नहीं किया जा सका तो तीन माह (नब्बे दिनों) की समय-सीमा को बढ़ायी जायेगी। यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा निर्माण में किये गये बाधा करने पर गुणवत्ता के सम्बंध में विवाद को छोड़कर जो नष्ट होगा, उस अवधि की गिनती उपरोक्त समय-सीमा में नहीं होगी।


10.यह कि प्रथम पक्ष ने, द्वितीय पक्ष को भावी क्रेताओं को प्रस्तावित आवासीय बहुमंजिला इमारत में से द्वितीय पक्ष के हिस्से 55 (पचपन प्रतिशत) आवासीय/व्यवसायिक बेवने हेतु प्रस्तावित खरीदार से एकरारनामा करने एवं अधिम रकम प्राप्त कर सकेंगे किन्तु इसके लिये प्रथम पक्ष जिम्मेवार नहीं होगा।

11.यह कि इस एकरारनामा के सम्पन्न होते ही द्वितीय पक्ष अपने खर्च पर तत्काल कार्य प्रारंभ कर देंगे। यथाशीघ्र समय-सीमा के अन्दर अपने खर्च एवं संसाधन पर पूरा करने का वादा निभायेंगे, जिन्हें नक्शा के अनुसार नाम दिया जायेगा।

12.यह कि द्वितीय पक्ष को इस एकरारनामा के आधार पर रखतः अधिकार प्राप्त है कि वे भावी क्रेता के साथ भवन बिक्री बावत कड़िका दो में दिखाये फ्लैट जो भवन निर्माता का नाम दर्ज है उनके लिए एकरारनामा कर सकते हैं और उन सभी क्रेता से अधिम राशि के तौर पर रकम या पूर्ण मूल्य लेकर उन्हे उसका रसीद दे सकते हैं, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष पर होगा और प्रथम पक्ष इसके लिए किसी तरह से उत्तरदायी नहीं होंगे।

13.यह कि प्रथम पक्ष किसी भी स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण सम्बंधी व्याय या अपव्याय अथवा किसी प्रकार के देन, वारदेन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

14.यह कि प्रथम पक्ष निर्माण सम्बंधी देन या किसी दुर्घटना से सम्बंधित विवाद के लिए उत्तरदायी एवं देनदार नहीं होंगे।



15. यह कि द्वितीय पक्ष के निर्माण सम्बंधी क्रेता द्वारा उठाये गए आपत्तियों आदि के लिए किसी भी स्थिति में प्रथम पक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे।

16. यह कि अगर अनुसूची "क" में दर्शाये गये भूमि के स्वामित्व या अधिकारों के सम्बन्ध में कोई त्रुटि पायी गयी तो प्रथम पक्ष त्रुटि या दोष को दूर करने के लिये उवित दस्तावेज प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष या उनके भावी क्रेता को सम्मय उपलब्ध करा देंगे।


17. यह कि प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के निर्माण संबंधी कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भवन निर्माण की गुणवत्ता का निरीक्षण प्रथम पक्ष या उनके प्रतिनिधि समय-समय पर कर सकते हैं एवं सुधार के लिये द्वितीय पक्ष को कह सकते हैं। प्रस्तावित आवासीय/व्यवसायिक बहुमंजिला इमारत में और तल जोड़ने के लिये अपने तरीके से नवशा बनवा सकते हैं और स्वीकृति हेतु सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं एवं भविष्य में भी अगर पुनः उपरोक्त प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत में सकारात्मक सुधार होने पर तदनुरूप कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें प्रथम पक्ष को भी समान हिस्सा देय होगा।

18. यह कि भवन संबंधी आवासीय ईकाई के हस्तान्तरण के लिये आवश्यक कागजातों का प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के कहने पर निष्पादित करने को तैयार रहेंगे।

19. यह कि द्वितीय पक्ष अपने हिस्से का निर्मित क्षेत्र/फ्लैट को बेचने के लिये पुर्णतः स्वतंत्र होंगे एवं प्रथम पक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। प्रथम पक्ष भी अपने हिस्से के निर्मित क्षेत्र/फ्लैट को बेचने के लिये स्वतंत्र होंगे जिसमें द्वितीय पक्ष को भी आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

20. यह कि प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को यह भी अधिकार देते हैं कि किसी भी सक्षम एवं अनुभवी ठेकेदार, आर्किटेक्ट, इंजीनियर से किसी भी प्रकार का एकरारनामा कर सकते हैं एवं उपरोक्त प्रस्तावित बहुमंजिला आवासीय इमारत का निर्माण नियमानुसार करा सकते हैं, इसपर प्रथम पक्ष को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी। सक्षम एवं अनुभवी ठेकेदार, आर्किटेक्ट, इंजीनियर का वेतन या अन्य पारिश्रमिक का भुगतान द्वितीय पक्ष करेंगे।

21. यह कि प्रथम पक्ष को प्रदत्त हिस्से का मालिक रख रखाव खर्च प्रथम पक्ष उक्त भवन की कमिटी को देंगे जो प्रति ईकाई जो भी खर्च उक्त भवन की कमिटी के द्वारा तय होगा।



- 22.द्वितीय पक्ष भवन निर्माण से संबंधित विजली के कनेक्शन एवं कार्य योजना से सम्बन्धित सरकारी आदेश लेने के लिये जिम्मेवार होंगे एवं उचित कार्रवाही करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।
- 23.यह कि प्रथम पक्ष एकरारनामा की तारीख के बाद किसी भी बैंक/बित्तीय संस्थान से अनुसूची "क" में वर्णित भूखण्ड पर ऋण नहीं लेंगे।
- 24.यह कि द्वितीय पक्ष अपने हिस्से के उपरोक्त वर्णित जमीन पर बने फ्लैट को या अपने क्रेताओं के क्षेत्र को बैंक अथवा अन्य बित्तीय संस्थान के साथ बंधक रखकर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- 25.यह कि बाढ़, भुकम्प, भूस्खलन, तुफान, दंगा, महामारी, युद्ध, हड्डताल, तालाबंदी, आपात कालीन इत्यादि या जैसी कोई भी परिस्थिति में जो प्राकृतिक विपदा हो तथा जिसपर विकासकर्ता का कोई वश न चले और उसकी वजह से उपरोक्त बहुमंजिला आवासीय इमारत या मकान के निर्माण कार्य में होने वाले विलम्ब को तय तिथि में नहीं जोड़ने के लिये विकासकर्ता से विचार विमर्श कर प्रथम पक्ष द्वारा अतिरिक्त समय लिखित दिया जायेगा।
- 26.यह कि विकासकर्ता इस एकरारनामा के निष्पादन के तत्काल बाद उपरोक्त जमीन में किये जाने वाले निर्माण से संबंधित विज्ञापनों को प्रकाशित करें, अपने हिस्से के विभिन्न फ्लैट इत्यादि इच्छुक खरीदारों के साथ अपनी कीमत एवं शर्तों पर एकरारनामा करें या ब्याना लें, इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। विकासकर्ता अपने हिस्से से संबंधित फ्लैट इत्यादि के इच्छुक खरीदारों के साथ एकरारनामा करने के अलावा ब्याना लेने एवं बिक्री की अन्य रकम को लेने का भी हक होगा, किन्तु प्रथम पक्ष उसके लिये जिम्मेवार नहीं होगा।
- 27.यह कि विकासकर्ता एवं प्रथम पक्ष या उनके विभिन्न हिस्से के खरीदारों को उक्त नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय इमारत या सकान की सुरक्षा एवं समुचित देखभाल के लिये एक समिति का गठन करके उसका सदरय चुनाना होगा तथा रख-स्थाव, देख-भाल एवं सुरक्षा में होने वाले खर्च को अपने अपने हिस्सों के दखल के निर्मित भाग के अनुपात में सामिलात खर्च बहन करना होगा।
- 28.यह कि अनुसूची "क" में वर्णित सम्पत्ति से संबंधित कागजात एवं नामान्तरण आदेश व जमाबंदी प्रभाण पत्र की छायाप्रति प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को हस्तगत करा दिया गया जिसे द्वितीय पक्ष प्राप्त किये।

निष्ठा जा

Agnishlok Bharti

पृष्ठ  
१८५  
मुक्ति

ग्रन्थालय  
मुक्ति

29. यह कि विकासकर्ता एवं जमीन मालिक के बीच इस एकरारनामा से संबंधित किसी भी बिन्दू पर विवाद होने में आरबिट्रेशन एवं कौन्सीलेशन एक्ट 1992 के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पंचायत द्वारा निपटारा किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत दोनों पक्ष अपने—अपने पंच चुनेंगे तथा दोनों पक्ष सहमति से एक अम्पायर का चुनाव करेंगे।

30. यह कि द्वितीय पक्ष को 55 प्रतिशत हिस्से का पलेट को बेचने के लिये, प्रथम पक्ष पावर ऑफ एटर्नी सम्पादित करेंगे। साथ ही साथ द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को उनके हिस्से का पलेट निश्चित अवधि के अन्दर सुपुर्द कर देंगे।

31. इस एकरारनामा से संबंधित किसी प्रकार का मुकदमा देवघर न्यायालय के अधीन निष्पादित होगा।

32. ग्राउड प्लोर में कार पार्किंग तथा जमीन में दोनों पक्षों का हक समान होगा।

33. निम्न कार पार्किंग स्पेश जो दोनों पक्षों के बीच बंटवारा हो गया है के अलावा जो कार पार्किंग स्पेश बचा हुआ है वह कोई भी पक्ष यानि मालिक या बिल्डर विक्री नहीं कर सकेंगे, यानि उक्त तीन कार पार्किंग स्पेश उक्त एपार्टमेन्ट के एसोसियसन व उक्त एपार्टमेन्ट में आने जाने वाले ग्राहक के उपयोग व व्यवहार के लिए रखा गया है।

34. उक्त एपार्टमेन्ट के फ्लेट बावत जो भी जी.एस.टी. टैक्स व अन्य प्रकार का टैक्स लगेगा वह दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से मुताबिक जमा करेंगे यानि प्रथम पक्ष अपने हिस्से के फ्लेट बावत उक्त जी.एस.टी. टैक्स व अन्य प्रकार का टैक्स अपने खर्च से जमा करेंगे तथा द्वितीय पक्ष उक्त जी.एस.टी. टैक्स व अन्य प्रकार का टैक्स अपने खर्च से जमा करेंगे, इसमें किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की उज्ज्वलिता नहीं है न कोई कर सकेंगा, अगर कोई करेगा तो वह न्यायालय से निरस्त समझा जायेगा।

### अनुसूची "क"


थाना न0 582, जिला, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, अंचल देवघर, सामील मौजा झोंसागढ़ी के अन्दर असर्वेक्षित बसीली सत्व की हस्तान्तरणीय जमीन, टाउन प्लान प्लाट न0 73 का अंश रकवा 6,300 वर्गफीट (छ: हजार तीन सौ वर्गफीट) यानि 14,462 डिसमिल, अन्दर जमावंदी न0 606/1, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न0 12, देवघर नगर निगम वार्ड न0 23, जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा हुआ अंश में दिखाया गया है, जिसकी चौहड़ी—  
उत्तर—लक्ष्मी निवास रोड।

इधर की माप पुरबा पच्छिमा 100'-00" फीट।  
दक्षिण—टाउन प्लान प्लाट न0 73 का अंश।

इधर की माप पुरबा पश्चिमा 100'-00" फीट।  
पुरब—टाउन प्लान प्लाट न0 74

इधर की माप उत्तरा दक्षिणा 63'-00" फीट।  
पच्छिम—प्रथम पक्ष की जमीन।

इधर की माप उत्तरा दक्षिणा 63'-00" फीट।



### अनुसूची "ख"

(प्रथम पक्ष का हिस्सा)

क) यह कि आच्छादित/पक्का और ढ़का निर्मित/अर्द्धनिर्मित क्षेत्र का 45% (पैंतालीस प्रतिशत) बहुमंजिला आवासीय या भवन में प्रथम पक्ष (जमीन मालिक) का होगा, जिसका बंटवारा प्रथम पक्ष का हिस्सा निम्न अनुसार है।

फ्लैट नं	फ्लॉर	सुपर बिल्टअप एरिया (वर्गफीट में)	बिल्टअप एरिया (वर्गफीट में)
1.	103	1 <sup>st</sup> 1436.50 Sq.ft.	1105 Sq. ft.
2.	201	2 <sup>nd</sup> 1761.50 Sq.ft.	1335 Sq. ft.
3.	202	2 <sup>nd</sup> 1371.00 Sq.ft.	1055 Sq. ft.
4.	303	3 <sup>rd</sup> 1436.50 Sq.ft.	1105 Sq. ft.
5.	401	4 <sup>th</sup> 1761.50 Sq.ft.	1335 Sq. ft.
Total Area		7767.00 Sq.ft	5935 Sq.ft.

मय अभिवाजित जमीन का अंश एवं ग्राउण्ड फ्लॉर में 8 से 12 (5 पॉच) कार पार्किंग।

### अनुसूची "ग"

(द्वितीय पक्ष का हिस्सा)

क) यह कि आच्छादित/पक्का और ढ़का निर्मित/अर्द्धनिर्मित क्षेत्र का 55% (पचपन प्रतिशत) बहुमंजिला आवासीय इमारत या भवन में द्वितीय पक्ष (विकास कर्ता) का होगा, जिसका बंटवारा द्वितीय पक्ष का हिस्सा निम्न अनुसार है।

फ्लैट नं	फ्लॉर	सुपर बिल्टअप एरिया (वर्गफीट में)	बिल्टअप एरिया (वर्गफीट में)
1.	101	1 <sup>st</sup> 1761.50 Sq.ft.	1335 Sq. ft.
2.	102	1 <sup>st</sup> 1371.00 Sq.ft.	1055 Sq. ft.
3.	203	2 <sup>nd</sup> 1436.50 Sq.ft.	1105 Sq. ft.
4.	301	3 <sup>rd</sup> 1761.50 Sq.ft.	1335 Sq. ft.
5.	302	3 <sup>rd</sup> 1371.00 Sq.ft.	1055 Sq. ft.
6.	402	4 <sup>th</sup> 1371.00 Sq.ft.	1055 Sq. ft.
7.	403	4 <sup>th</sup> 1436.50 Sq.ft.	1105 Sq. ft.
Total Area		10509.00 Sq.ft	8045 Sq.ft.

मय अभिवाजित जमीन का अंश एवं एवं ग्राउण्ड फ्लॉर में 1 से 7 (7 सात) कार पार्किंग।

Kumar  
Patel  
Omkar Homes

Om  
Om

Abhishek Bharti

Soham She

ख. यह कि गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था प्रस्तावित आवासीय/व्यवसायिक भवन के मूलतः में या अन्यत्र जहाँ कही भी की जायेगी जो खुले/आच्छादित या आनाच्छादित दोनों होगी तथा उसमें 45 प्रतिशत प्रथम पक्ष का तथा 55 प्रतिशत द्वितीय पक्ष का होगा।

ग. प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष पार्किंग क्षेत्र का 45-55 प्रतिशत भाग के हकदार होंगे, निर्मित पलैट के सबसे ऊपरी खुले छत का प्रयोग प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष सुरक्षा तथा आपने अपने हित को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से उपयोग करेंगे।

### अनुसूची "घ"

(भवन निर्माण में उपयोग की जानेवाली सामग्री मापदण्ड एवं विशेषता)

- 1.फाउण्डेशन :—पारित नक्शे के डिजाइन के अनुरूप भूकम्परोधी एवं/अथवा आर.सी.सी. पाईलिंग स्ट्रक्चर डिजाइन के अनुसार पेर्स्ट कंट्रोल ट्रिटमेंट के साथ।
- 2.स्ट्रक्चर :—आर. सी. सी. फ्रेम स्ट्रक्चर 1: 2: 3
- 3.सिविल वर्क :—लाल इंट (धिगनी) का काम बेहतरीन, सिगेन्ट मसाले 1:6 (ACC/Lafarge/Jaypee/Ultratech/Ambuja/Dalmia) के साथ।
- 4.प्लास्टर एवं फलोरिंग :—6mm(1:6) Brick work पर और 1:6 R.C.C एवं उत्तम क्वालिटी का भार्टीफाईड टाईल्स फ्लोर पर।
- 5.छड़ :—टी.एम.टी. (टाटा, जिंदल, सोल) नामी कम्पनी का।
- 6.दरवाजा :—मोहायूलर या मोल्डेट फ्लश डोर 35mm भोटा प्राईमर और एवं दो कोर्ट रंग के साथ उड़ सिजन का डोर फ्रेम ( $7 \times 4$ ) दोनों इन्फ्रैंस के लिए।
- 7.खिड़की :—तीन ट्रैक एल्युमिनियम (हेवी क्वालिटी) फ्रेम एवं तीन स्लाईडिंग पैनल एवं डिजाइलन ग्रील के साथ न्यूनतम साईज ( $2' \times 1'$ )
- 8.बाथरूम सिरागिक :—ग्लेज़ टाईल्स 7 फीट उँचाई तक, झरना वास बेसिन एवं ठंडा गर्म पानी नल की व्यवस्था के साथ (गीजर लगाने का प्रावधान)
- 9.किचेन :—वर्किंग प्लेटफार्म में काला ग्रेनाईट पत्थर, डैडो ग्लेज़ टाईल्स स्टेनलेस स्टील सिंक एवं 2 फीट उँचाई के साथ।
- 10.इलेक्ट्रीकल्स :—कान्सिल्ड पी. वी. सी. कॉपर कॉन्ड्यू वाईरिंग स्टेण्डर्ड फिटिंग स्वीच शॉक प्रूफ, तीन बेखरूम, हॉल एवं किचन के साथ अलग—अलग।
- 11.प्लाविंग एवं सेनेटरी :—जी.आई./मोटा पी. वी. सी. पाईप कॉन्सिल्ड स्टेण्डर्ड फिटिंग हिन्दवेयर फिटिंग एवं जग्गुआर/भार्क नल सभी जगह बाथरूम किचन एवं वाशबेसिन में।
- 12.फिनिशिंग :—सभी अन्दर की दीवार एवं सिलिंग में सिगेन्ट वालुपटटी फिनिश और बाहर के रेपेस के लिए सिगेन्ट वालपुटटी के उपर पेन्ट होगा।
- 13.कॉमन :—कॉमन टी० वी० एंटीना कनेक्शन हर प्लैट में। दो जगह हॉल एवं मास्टर बेडरूम में।
- 14.जल पूर्ति :—चौबीस घंटे जल आपूर्ति अपने बोरिंग एवं ऊपरी टैक से।

For Omkara Homes

Kamalendra Kumar  
दिल्ली निवासी

Abhishek Ghosh  
भूमि

Sophia Jha

15.जेनरेटर :—जेनरेटर सुविधा कॉमन कार्य के लिए।

16.लिफ्ट :—लिफ्ट 6/8 पैसेजर वाले होगी। जो जॉनसन या ऑटिस कम्पनी की होगी।

17.विद्युत आपुर्ति :—विद्युत आपुर्ति के लिये जरूरत के अनुसार अलग से अपना ट्रांसफार्मर लगेगा।

18.इन्टरकॉम :—हर फ्लैट में सुविधा होगी।

19.सिवरेज एवं वाटर हारवेस्टिंग :—उचित व्यवस्था की जायेगी।

20.इनभर्टर का वायरिंग :—हर फ्लैट में होगा।

विशेष :—खरीदार के अनुसार अनुसूची “घ” की मौलिक संरचना को छोड़कर अन्य जरूरतों के अनुसार देय राशि का भुगतान करने पर आवश्यकतानुसार फेर-बदल किये जा सकते हैं।

आज दिनांक 7 / 8 / 2024 इस्वी को प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को इस एकरानामा वास्ते भवन निर्माण सह बिक्री की शर्तों को पढ़ा व सुना दिया गया। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद स्वेच्छा से स्वस्थ मानसिक स्थिति में बिना किसी जोर दबाव के निम्न गवाहों के समक्ष इस दस्तावेज पर अपना अपना हस्ताक्षर बना दिये कि समय पर काग आवे वो प्रमाण रहे।

गवाहों का हस्ताक्षर

गजेन्द्रा रामराज्य

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर  
Kamalendra Kumar  
द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर  
Partner

① Shelesh Mishra  
510 Gopal Prasad Mishra  
Beldi Natha Lane  


② Mahesh Kumar Jaiswal  
510 Sahadeo Rout  
Castor-tour Deoghar

For Omkara Homes

Kamalendra Singh  
Particulars  
Date 21/02/2015

Abhishek Bhattacharya

Sapna Jha

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर एवं टीप निशान

१५



अभिशेख  
भट्टाचार्य

२१ फरवरी २०१५



for Omkara Home.

Lakshmi Laxmi  
Bharti  
Abhishek Bharti

Hari Hari

Abhishek Bharti  
Sapna gha

समर्थनकर्ता का हस्ताक्षर एवं टीप निशान

4/10



4/10/44


Abhishek  
Bharti



4/11



Sapna Gha



Abhishek  
Bharti



Abhishek  
Bharti



For Omkara Homes

Kamalendu Bhattacharya  
Partner  
0121 21212121

Abhishek Ghosh  
Signature

Sudan Ghosh

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर एवं टीप निशान




For Omkara Homes  
Kamalendu Bhattacharya  
Partner

दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया तथा प्रमाणित किया जाता है  
कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है, के बाये हाथ के  
अंगूलियों के निशान मेरे द्वारा लिया गया है, सीताराम पांडित  
अधिवक्ता / डीड सायटर देवघर, दिनांक

07.08.2024


PLAN OF LAND UNDER MOUZA JHOUNSAGAR NO. 882 WITHIN DEOGHAR NAGAR NIGAM WARD NO. 23 JAMABANDI NO. 206/3 PART OF T. P. PLOT NO. 73 AREA 8300sqft SHOWN IN RED COLOUR BELONGS TO SRI GAJENDRA NARAYAN MISHRA & LATE HARI NARAYAN MISHRA & NOW AGREEMENT FOR BUILDING CONSTRUCTION IN FAVOUR OF OMKAR HOMES THROUGH PARTNER SRI KAMLENDRA KUMAR & LATE MANKANDEY JHA KUNJILWAR OF CHHAPBORTI LANE B. DEOGHAR JHARKHAND



Ramakrishna Kumar  
Partner  
Omkar Homes  
Deoghar, Jharkhand

Drawn by  
R. K. Kumar  
6/8/2023

Digitized by  
R. K. Kumar



10RS

Sale Decided Rs. 1500/- only

① यह दस रुपये का नोट बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। यह नोट अपनी विशेषताओं के लिए बहुत लोकप्रिय है। इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

प्रिंटिंग - दस रुपये का नोट पर दस रुपये का लिप्ति लिखा है।

प्रिंटिंग - दस रुपये का नोट पर दस रुपये का लिप्ति लिखा है।

प्रिंटिंग - दस रुपये का नोट पर दस रुपये का लिप्ति लिखा है।

प्रिंटिंग - दस रुपये का नोट पर दस रुपये का लिप्ति लिखा है।

प्रिंटिंग - दस रुपये का नोट पर दस रुपये का लिप्ति लिखा है।

प्रिंटिंग - दस रुपये का नोट पर दस रुपये का लिप्ति लिखा है।

प्रिंटिंग - दस रुपये का नोट पर दस रुपये का लिप्ति लिखा है।

प्रिंटिंग - दस रुपये का नोट पर दस रुपये का लिप्ति लिखा है।

2@10/-  
6@8/-  
1@4/-  
72/-

YUO/1973  
17.7.73

for Omkara Homes  
Kamla Prasad Bhattacharya  
Chowdhury  
17.7.73

96/- 6@13/-  
dear

Hariprasanna Bhattacharya  
Chowdhury  
17.7.73



## Executive witness

(1) Hariprasanna Bhattacharya chowdury  
and (2) Kamla Prasad Bhattacharya chowdury  
who are identified Falguni Bhattacharya  
S/o ~~Hariprasanna~~ Hariprasanna Bhattacharya chowdury  
of n/a place

3/3  
17/7/73

Hariprasanna Bhattacharya  
Chowdhury  
17.7.73.

3/3  
17/7/73  
Kamla Prasad Bhattacharya  
Chowdhury  
17.7.73.

3/3  
17/7/73



66  
17/7/73

Falguni Bhattacharya  
17.7.73

BIHAR

10 Rs.



~~2000-212 no. G<sub>3</sub> or 320~~

~~Year 212 no. G~~

47-2625 - 213-

Amr 4/13 200-8 -

For Omkara Homes

Kawaledra kum  
partie.

BIHAR

8 R5

# INDIA'S

३ प्राट  
संस्कृतम्

३०८  
संक्षिप्त

**EIGHT RUPEES**

ભારત

# **EIGHT RUPEES**

1913  
1-1

BIHAR

8 RS

# INDIA

३०८  
संख्या

आद  
राष्ट्रिया

# EIGHT RUPEES

भारत

**EIGHT RUPEES**

Clariposse Blattodys  
Chondy.  
12.9.23.

Kamala B. Srinivas / Working Class

For Omkara Homes  
Kawalendra K.L.  
Partner

For Omkara Homes  
Kawalendra K.L.  
Partner

BIHAR

8RS

INDIA

आठ  
रुपया

आठ  
रुपया

EIGHT RUPEES

भारत

EIGHT RUPEES

Shrikumar Bhattacharya  
Chand

17.2.15

Laxmi Prasad Bhattacharya  
Chand

For Omkara Homes

Kawalendra Kumar  
Partner

आठ रुपया  
भारत गवर्नर बहादुर शाह जिनालाल के द्वारा जारी किया गया एक चारों ओर से असेंट वाला छठा नमूना चारों ओर से असेंट वाला छठा नमूना।

BIHAR

INDIA'S

आठ  
रुपया

आठ  
रुपया

EIGHT RUPEES

भारत

EIGHT RUPEES

Hariprasad Bhattacharya  
Bhowali.  
17.9.23.

Kenakanta Mahadev Ray  
17.7.23.

For Omkara Homi

Kamalendra Kumar

P.S. 10

BIHAR

8 RS.

INDIA

आठ  
रुपया

आठ  
रुपया

EIGHT RUPEES

भारत

EIGHT RUPEES

कामलेन्द्र कुमार  
देवने  
लोकार्थ निकाल  
कालीगंगा बाजार  
शहर  
१७. ७. १९५७

BIHAR

8RS

INDIAS

आठ  
रुपया

आठ  
रुपया

EIGHT RUPEES

भारत

EIGHT RUPEES

For Omgara Home  
Lakshmi Devi Kusum  
Partner  
Chandrapur Block Gram Panchayat  
19.4.2017  
Signature Verified  
Om Gara Home

BIHAR

4 R<sup>9</sup>



1180218

Est. 1

29/11/2011  
Babu Gopal Das  
was a Great  
Sant

vector of  
gradient vector  
vector function  
gradient operator -  
g(3) = 11122  
vector  
967676

Talgooni Bhattacharya  
Porwill. Silindra  
P.S. chakdaha  
Dist. Nadia  
W. Bengal.

Shawnee Mound village.

12/2/73

For Ontario Homes  
Kawartha Partners

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT

संग्रहीत संस्कारण कार्ड  
Retained Receipt Card


AAGFD5744F

Name/  
रोपनी नाम  
OMKARA PDMES

Date of Issue/Expiry Date  
दिनांक/उपलब्धि तिथि  
13.02.2019

भारत सरकार  
GOVT OF INDIA

0002010





ccured

Details(प्लॉट आवेदन की स्थिति)

No./Year Session	:	566/2020 - 2021
Current Status	:	Disposed off
Date of Receipt of Application	:	07-Aug-2020
Forward from CO to DA	:	10-Aug-2020
Forward from DA to CO	:	Forwarded to CO
Verified by DA	:	
Verified by Karmchari	:	AMRESH JHA 14-Nov-2020
Verified by CI	:	DEWASHISH BHUI 14-Nov-2020
Verified by CO	:	18-Nov-2020
Correction slip Generation	:	18-Nov-2020

Applicant Details

Applicant Name	Guardian Name	Address
गजेन्द्र नारायण मिश्र	हरी नारायण मिश्र	देवधर, सबडिविजन, सबरजिस्ट्री व जिला देवधर, झारखण्ड

Buyer Details

Buyer Name	Guardian Name	Address
गजेन्द्र नारायण मिश्र	हरी नारायण मिश्र	देवधर, सबडिविजन, सबरजिस्ट्री व जिला देवधर, झारखण्ड

Seller Details

Seller Name	Guardian Name	Address
हरी प्रसन्न भट्टाचार्य चौधरी वगैरह	तारा प्रसन्न भट्टाचार्य	साकिन सिलिन्दा, पाना चकदा, जिला नदिया

Plot Details

District Name	Mauja Name	Circle Name	Halka Name	Khata No	Plot No	Area
देवधर	झोसागढ़ी	देवधर	हल्का-11	606/1	TPP 73	0 एकड़ 0 डिसमील 8890 वर्गफीट

[Copy of Correction Slip](#)

[Copy of CO Order](#)

[Copy of Receipt](#)

झारखण्ड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

नामांतरण शुल्क-पत्र

Duplicate-copy CRSLP05015635

7/24/2012



क्रमिक संख्या	का नाम	देवघर	भाग कर्तमान(VOL)	अनुमोदित नाम देवघर	अचल का नाम	देवघर	हस्ता का नाम	हस्ता का नाम	
5635	566 /B27 2020 - 2021	होमगढ़ी/ 11/0582	देवघर	18/11/2020	मौजूद का नाम एवं संख्या वर्तमान नाम देवघर, सर्वांगिकन, सर्वांगिकन, देवघर, झारखण्ड	परिवर्तन प्रकार By Succession Interim Deed 3646 Dated 17/07/1973	अभिषेक जिसमें नामांतरण संबोधित है खाता भाग पृष्ठ संख्या न. वर्तमान वर्तमान	कारोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	लगान राखिस्टर 2 अवधान लिख अप्लाई

क्रेता का नाम :  
(प्रजेन्द्र नारायण मिश्रपिता हरी नारायण मिश्र, जाति—, पता—  
देवघर, सर्वांगिकन, सर्वांगिकन, देवघर, झारखण्ड)

जमावदी वैयत का नाम :  
हरिनारायण मिश्र

विकेन्ता का नाम :  
हरी प्रसाद भट्टाचार्य चौधरी बगीरह, पिता-दास प्रसाद भट्टाचार्य,  
जाति—, पता-संकेन सिलिन्दा, धामा चक्रद, जिला नरेया

राजस्व कार्यालय हस्ता-11 को आवश्यक कार्यालयी पर्यंत सूचनापूर्वक अनुमति दी गई है।

यह प्रपत्र केवल गार्थी की जनकारी के लिए है।  
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में संघरण के रूप ये नहीं किया जा सकता है।

Signature valid

Digitally signed by

ANIL KUMAR SINGH

अचलाधिकारी देवघर

कोरोना के उड़ जाएंगे ग्राण, जब सङ्क्रक पर न जाएं इन्सान।

180वां

पर्याप्ति

नेम निम्न मीजा मय

नम्बर

नम्बर

मर | इमेजामरी | 11/05/2023 | गवेन्ट नम्बर निव

फरद मलकी / फरद ईयती

Page No. : 21

नाम ईयत मय वलिदयत जमानदी Vol. No. : 41

वो सकुनत नम्बर Receipt No. : 0992909058

चात संख्या	चेत्र संख्या	रकम (एकड़ में)
606/1	TPP 73	0 एकड़ 0 डिसमील 8890 रुपये

उत्तराजी नम्बरी	उत्तराजी भावती	उत्तराजील हिसाब लगान भावती
-----------------	----------------	----------------------------

बोत कर सालना मांग मय सफाईल (बकाया यो हाल) मौजूदा साल कर।

मांग वावत	सालना	बकाया			हाल (2023-2024)
		तीन वर्ष से ज्यादा	3 वर्ष (2020-2021)	2 वर्ष (2021-2022)	
माल	(नम्बरी)	100.00	100.00	100.00	100.00
गुजारी	(भावती)	25.00	25.00	25.00	25.00
सेस	....	50.00	50.00	50.00	50.00
सद	....	50.00	50.00	50.00	50.00
मुतपरकात	....	20.00	20.00	20.00	20.00
भीजान	....	245.00	245.00	245.00	245.00

तफसील अदागकारी

अदागकारी वावत	बकाया			मांगलवा हाल (2023-2024)	प्रतिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	3 वर्ष (2020-2021)	2 वर्ष (2021-2022)		
माल	(नम्बरी)	100.00	100.00	100.00	100.00
गुजारी	(भावती)	25.00	25.00	25.00	25.00
सेस	....	50.00	50.00	50.00	50.00
सद	....	50.00	50.00	50.00	50.00
मुतपरकात	....	20.00	20.00	20.00	20.00
भीजान अदागकारी	....	245.00	245.00	245.00	245.00

(1) भीजान कुल (लफजो में) : Nine Hundred Eighty Rupees

(2) नाम देहिन्दा -

(3) कुल रकमा - 980.00

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 21-04-2023

सास मध्यत रब बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकाये पर जिन पर भट्टिकेट जारी हो) सद नहीं लिया जाता है।



यह एक बज्युटर बनित प्रस्तुति है।

यह प्रपत केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

मिती भी प्रकार की अधिकारी के लिए सम्बन्धित अवलम्बिती से संपर्क करें।

दो गज की दुरी का रक्तो द्वाज यही है कोरोना का समायाज।

Print

## निबंधन कार्यालय में दस्तावेजों की जाँच हेतु चेकलिस्ट

क्र० सं०	चेकलिस्ट का विषय	Yes	No
1	खतियान की सत्यापित प्रति		
	खतियान उपलब्ध न होने की स्थिति में अंचल कार्यालय से ई—मेल के माध्यम से प्राप्त — (i) अंचलाधिकारी द्वारा प्रमाणित पंजी-II अथवा (ii) भू—स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा (iii) शुद्धि पत्र .		Yes
	(iv) अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र अप्राप्त रहने की स्थिति में पक्षकार द्वारा अंचल कार्यालय में आवेदन समर्पित करने की प्राप्ति रखीद।		
2	भूमि से संबंधित हाल सर्व नक्शा तथा इसके उपलब्ध न होने की स्थिति में पक्षकार द्वारा तैयार स्वप्रमाणित “नजरी नक्शा” जिससे भूमि की अवस्थिति के संबंध में पता चल सके ।		
3	पंजी-II का वात्यूम संख्या तथा पृष्ठ संख्या का वर्णन		
4	मुद्रांक शुल्क का भुगतान	Yes	
5	निबंधन शुल्क का भुगतान	Yes	
6	आधार सत्यापन	Yes	
7	PAN सत्यापन		
8	होल्डिंग संख्या का वर्णन (शहरी क्षेत्र होने की स्थिति में)		

*अश्विनी*

SABITA KUMARI

जाँच लिपिक का हस्ताक्षर  
तिथि सहित

*MANOJ KUMAR*

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
तिथि सहित

*सीलन संटित  
डीड राघव देवपर*



# ASSOCIATION, DEOGHAR

FOR THE NOTARY PUBLIC/

EXECUTIVE MAGISTRATE AT DEOGHAR

DBA- DEO/SI.No.

434D

## AFFIDAVIT

एक दस्तावेज का शपथ पत्र

मैं/हमलोग छायेंड्रा नाशयण मिश्र पिता श्यो भरि नाशयण मिश्र<sup>जी</sup>  
ओमकारा हैम्ब "वरिष्ठे पार्टनर श्री कमलेन्द्र छुमर

का शपथ पुर्वक बयान करता/करती करत है/है कि-

1. यह कि एकरारनामा में वरिष्ठ सम्पत्ति से संबंधित जो कागजात अनुलेखन के लिये सत्यानुसार दिया है/किये हैं वह सही और सत्य है।

2. यह कि सम्पत्ति से संबंधित दारिद्र्य सभी जाति एवं सम्बन्धित सही एवं सत्य है पदि भविष्य में गलत पाया जाहुए तो इसकी सारी जवाबदेही मझे/हम शपथकर्ता को सुनी एवं शास्त्रीय तथा अधिकारियों/अधिकारियों के तहत मेरे/हमलोगों के विरुद्ध सामिचित कार्रवाही की जायेगी।

3. यह कि मैं आपसे प्रतिक्षिप्त रुद्धी रखता/दूँगा वा आई अश्वा कोइ जॉच एजेक्यो तकी जॉच वा एस्टेट्स नोटरी द्वारा आपसे नहीं है वा राष्ट्रित के बावजूद किसी व्यापारालय में मुकदमा विचाराधीन नहीं है।

4. मैं आपसे उन्नीस वर्षों से भी/हमलोगों जानकारी में सत्य है आपसे मेरी आदमी हूँ/है।

शपथकर्ता ने मेरे सामने  
इस शपथ पत्र पर अपना  
उस्ताद्दर बनाये

अधिवक्ता देवघर  
*Om Kumar Lal*

Kamalendu Singh  
राजस्थान न्यूजीलैंड  
शपथ करने वाले हस्ताक्षर  
उपर्युक्त शपथकर्ता ने इस शपथ पत्र में  
उल्लंघित कथन का स्वीकार व अंगीकार किये

*Omkumar Lal*  
नोटरी पब्लिक ऑफिस  
Jagatsinghpur Deoghar  
JHARKHAND के देवघर


Transaction Success! Please Note Your Transaction Id.

Name	OmkaraHomes
Token No / Depositor ID	202400063954
Amount	100
Transaction ID	42967046c57d74cb2edc
GRN	2402382269
CIN	10002162024060314747
Time	2024-06-03 20:28:34

कोरोना को हराना हैं सफाई को अपनाना हैं



दो गज की दूरी मास्क है जरूरी





## Pre Registration Docket

Date :- 06-08-2024 08:23 pm

Office Name :-

Token No:- 202400063954

Article	Development Agreement
Pre Registration Date	02-Jun-2024
No. Of Pages	50
Stamp Duty	4
Paid Stamp Duty	0
Total Fees	₹ 3,20,567.

Property Id: 1228199

Valuation No. : 1672508 / 2024	:- 2024-2025	Date : 26-May-2024 20:19:PM
State : Jharkhand	District : Deoghar	Tahsil : Deoghar
Land Type : Urban	Corporation : Deoghar Municipality	Village/City : Jhousagarhi
Jhousagarhi Word No 23 - Other Road	-	
Volume Number - 41		
Page Number - 21		
Plot Number - TPP 73		
Ward Number - 23		
Holding Number - 0040000365000A4		
Khata Number - 606/1		

### Property Rates

Commercial Land (Y)

₹877071/- Decimal

Valuation Rule : Commercial land

### Property Details

1	Land area	14.46 Decimal
---	-----------	---------------

### Calculation Details

Sr.No.	Description	Calculation	Total
1	Open Land Valuation	1. 14.46 x 877071=12682446.66	₹1,26,82,447/-
A	Total		₹1,26,82,447/-

Valuation is Rounded to Next 100/-

Valuation (A)	₹1,26,82,500/-
Amount in Words : One Crore Twenty Six Lakhs Eighty Two Thousands Five Hundred Rupees Only.	

Land measurement, Sub Part and House No.	<b>Property Boundaries</b> East: TPP NO. 74, West: LAND OF FIRST PARTY, South: TPP NO. 73 PART, North: LAXMI NIWAS ROAD
Area	Land area : 14.46 Decimal
Other Description of the Property	Pin Code - 814112
Government/Market Value	12682446.66
Transaction Amount	-

CLAIMANT	OMKARA HOMES-Mr. KAMLENDRA KUMAR, ,Father/Husband Name MARKANDEY KUNJILWAR., Party Category-Company / Colonizer , PAN No.- Date of Incorporation-23-Jul-2019,Permission Case No.- , Aadhaar No. *****6177, Country-INDIA, State Name-Jharkhand, District Name-DEOGHAR, City/Village/Town Name-DEOGHAR, Locality-DEOGHAR,Address - CHAKRABORTY LANE, DEOGHAR, Pin Code-814112
EXECUTANTS	-Mr. GAJENDRA NARAYAN MISHRA, ,Father/Husband Name HARI NARAYAN MISHRA., Party Category-Individual , PAN No.- Date Of Birth-01-Jan-1963,Permission Case No.- , Aadhaar No. *****1332, Country-INDIA, State Name-Jharkhand, District Name-DEOGHAR, City/Village/Town Name-DEOGHAR, Locality-DEOGHAR,Address - CHAITANYANATH JEJWARE PATH, DEOGHAR, Pin Code-814112

Witness Information	Mr. SHAILESH MISHRA , Address - BAIDYANATH LANE, DEOGHAR-, Father/Husband Name-SUSHIL PRASAD MISHRA
---------------------	---

Identifier Details	Mr. SHAILESH MISHRA , Address - BAIDYANATH LANE, DEOGHAR-, Father/Husband Name-SUSHIL PRASAD MISHRA
--------------------	---

Fee Rule:Development Agreement

SP		1,500
Total		1,500
<b>ule:Development Agreement</b>		3,17,063
1	A1	2,000
2	E	3
3	LL	1
4	PR	3,19,067
Total		

All the entries made, have been verified by me and are found same as the entries of the document presented.

**Disclaimer :** I hereby declare that all the contents of uploaded document and the original document are exactly same, and all the information provided by me are true to itself. The detail of property's holding number has been verified by me at the time of entry through alert generated by the system. I am satisfied with the verification and hence proceeding further for registration after seeing the alert.

	Deed Writer / Advocate		Vendee / Claimant		Partner		Vendor / Executant
For Omkara Homes				Omkareshwar Patel			

कोरोना को हराना है सफाई को अपनाना है



दो गज की दूरी मास्क है जरूरी

## Document Registration Summary 1

Date :-07-Aug-2024

- Government/Market Value: ₹12682500/-
- Transaction Amount: ₹0 /-
- Paid Stamp Duty: ₹100 /-

**Receipt : 1070782**

**Receipt Date : 07-08-2024**

**Presenter Name: -**

On Date 07-08-2024 Presented at SRO - Deoghar  
Signature of Presenter

SRO - Deoghar

E	₹2000
PR	₹1
SP	₹1500
LL	₹3
A1	₹317063
<b>Stamp Duty</b>	<b>₹100</b>
<b>Total</b>	<b>₹320667</b>

Payment Head	Amount To Be paid	Paid Amount	Balance Amount	Payment Mode	Payer Name	Reference No.	Payment Amount
Stamp Duty	4	100	-96	GRAS	OmkaraHomes	GRN Number : 2402382269 DEPT Transaction Id : 42967046c57d74cb2edc Transaction Type :	100
E	2000	2000	0	GRAS	OmkaraHomes	GRN Number : 2402382227 DEPT Transaction Id : 82a2b28714b5089df19b Transaction Type :	2000

	1	1	0	GRAS	OmkaraHomes	GRN Number : 2402382227 DEPT Transaction Id : 82a2b28714b5089df19b Transaction Type :	1
SP	1500	1500	0	GRAS	OmkaraHomes	GRN Number : 2402382227 DEPT Transaction Id : 82a2b28714b5089df19b Transaction Type :	1500
A1	317063	317063	0	GRAS	OmkaraHomes	GRN Number : 2402382227 DEPT Transaction Id : 82a2b28714b5089df19b Transaction Type :	317063
LL	3	3	0	GRAS	OmkaraHomes	GRN Number : 2402382227 DEPT Transaction Id : 82a2b28714b5089df19b Transaction Type :	3
Sub Total	320571	320667	-96				

Article : Development Agreement Number of Pages : 100

  
Signature of Operator

  
SABITA KUMARI  
MANOJ KUMAR  
Signature of Head Clerk

  
MANOJ KUMAR  
Signature of Registering Officer





## OFFICE OF THE SUB REGISTRAR

Office Name :- SRO - Deoghar

District Name :- Deoghar

State Name :- Jharkhand

## Deed Endorsement

Token No :- 202400063954

Deed Type	Development Agreement
Number of Pages	100
Fee Details	Stamp Duty :- Rs. 4, E :- Rs. 2000, PR :- Rs. 1, SP :- Rs. 1500, A1 :- Rs. 317063, LL :- Rs. 3,
Property No.	1
Valuation Details	Value :- Rs.12682447/- , Transaction Amount :- Rs.0/-
Property Details	District :- Deoghar , Tehsil :- Deoghar , Village Name :- Jhousagarhi Location :- Other Road, Jhousagarhi Ward No 23 Property Boundaries :- East: TPP NO. 74, West: LAND OF FIRST PARTY, South: TPP NO. 73 PART, North: LAXMI NIWAS ROAD Volume Number - 41 Page Number - 21 Plot Number - TPP 73 Ward Number - 23 Holding Number - 0040000365000A4Khata Number - 506/1 Area Of Land :- 14.46 Decimal

Sh./Smt. GAJENDRA NARAYAN MISHRA s/o/d/o/w/o HARI NARAYAN MISHRA has presented the document for registration in this office today dated :- 07-Aug-2024 Day :- Wednesday Time :- 14:31:32 PM

GAJENDRA NARAYAN  
MISHRA(Individual)Document Number  
\*\*\*\*\*1332

Party Name	Document Type	Document Number
GAJENDRA NARAYAN MISHRA	PAN/UID	*****1332

Sr.NO	Party Name and Address	IS PAN Verified?	Is e-KYC Verified?	e-KYC Details	Power Of Attorney	Party Type	Party_Photo	Finger Print	Signature
1	GAJENDRA NARAYAN MISHRA Address1 - CHAITANYANATH JEWARE PATH, DEOGHAR, Address2 - DEOGHAR, ..., Jharkhand PAN No.: Permission Case No.-	No	Yes	Gajendranarayan Mishra Address:- Vina Sadan, Infront of Khadi Gram Udyog, Ward No 23, Shivpuri, Deoghar, Deoghar, 814112, Deoghar Court, Jharkhand, India	EXECUTANTS Age:61				Rejendra N 13 G

Name and Address	IS PAN Verified?	Is e-KYC Verified?	e-KYC Details	Power Of Attorney	Party Type	Party_Photo	Finger Print	Signature
KAMLENDRA KUMAR Address1 - CHAKRABORTY LANE, DEOGHAR, Address2 - DEOGHAR, Jharkhand PAN No.: Permission Case No. -	No	Yes	Kamleendra Kumar Address:- Near Vananchal Gramin Bank (JRG Bank), Geeta Devi D. A. V. Public School Road, Castairs Town, Deoghar, Deoghar, 814112, B. Deoghar, Jharkhand, India		CLAIMANT Age:			

Identification:

Sr.NO	Party Name and Address	Photo	FingerPrint	Signature
1	SHAILESH MISHRA S/o-D/o SUSHIL PRASAD MISHRA Address1 - BAIDYANATH LANE, DEOGHAR, Address2 - Jharkhand PAN No.:			

Witness:

I/We individually/Collectively recognize the Seller(S) and Buyer(s)

Sr.NO	Party Name and Address	Photo	Thumb	Signature
1	SHAILESH MISHRA Address1 - BAIDYANATH LANE, DEOGHAR, Address2 - Jharkhand			

  
Signature of Operator

MANOJ KUMAR.  
Seal and Signature of Registering Officer



Above signature & thumb Impression are affixed in my presence.

Above mentioned, ( GAJENDRA NARAYAN MISHRA), has/have admitted the execution before me. They has / have been identified by (SHAILESH MISHRA) Son/Daughter/Wife of (SUSHIL PRASAD MISHRA) resident of (BAIDYANATH LANE, DEOGHAR) and by occupation (Business).



Signature of Registering Officer

MANOJ KUMAR  
Seal and Signature of Registering Officer

Token No.: 202400063954

## CERTIFICATE

### Office of the SRO - Deoghar

This Development Agreement was presented before the registering officer on date 07-Aug-2024 by  
**GAJENDRA NARAYAN MISHRA**, S/O, D/O, W/O HARI NARAYAN MISHRA resident of CHAITANYANATH  
JEWARE PATH, DEOGHAR, DEOGHAR.

This deed was registered as Document No:- 2024/DEO/797/BKL/712 in Book No :- BKL, Volume No :- 277  
from Page No :- 459 to 558 at, office of **SRO** - Deoghar

Date:- 07-Aug-2024

Registering Officer

